



**प्रेस नोटथाना डिडौलीदिनांक 17.10.2021**

**श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शादीसमारोह में चोरी व टप्पेबाजी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार**

**थाना डिडौली पुलिस द्वारा कस्बा जोया में बारातघर से शादी के दौरान दुल्हे के पिता के बैग में रखी नगदी चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, चुराये हुए 62000/- रुपये**

**बरामदा**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2021 को थाना डिडौली क्षेत्र के कस्बा जोया में अशीकला बारातघर में वादी सरताज की शादी की प्रोग्राम था। शादी समारोह के दौरान सरताज के पिता मौहम्मद अली के पास रुपयों के बैग में से अज्ञात चोर द्वारा 67 हजार रुपये की नगदी निकाल ली थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी सरताज द्वारा थाना डिडौली पर मु0अ0स0 402/2021 धारा-380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। शादी समारोह में चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.2021 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा अथक प्रयास से उक्त घटना का सफल अनावरण कर घटनास्थल के आस-पास की सी.सी.टी.वी फुटेज एवं पूछताछ पर प्रकाश में आये अभियुक्त इकरार पुत्र इस्तयाक निवासी मौ0 काशीराम थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को समय करीब 12.50 बजे मौहल्ला काशीराम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से बारातघर से चोरी किये गये 62000/- हजार रुपये नगद बरामद हुए वशेष 5000/- हजार रुपये अभियुक्त इकरार द्वारा खर्च करना बताया गया।



**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. इकरार पुत्र इस्तयाक निवासी मौहल्ला काशीराम थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

**बरामदगी:-**

1. चोरी किये गये रुपये में 62000/- हजार रुपये बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.थानाध्यक्ष श्री रमेश सहरावत थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 संजीव कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. हे0का0 236 देवेन्द्र कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. का0 1085 नरेन्द्र रावत थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

